



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15—मई 21, 2004 (वैशाख 25, 1926)  
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15—MAY 21, 2004 (VAISAKHA 25, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक

दि इंडस्ट्रियल ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 29 अप्रैल 2004

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

ई. III/9(1)94/एम.पी/खंड-II—चूंकि मैसर्स राजकुमार मिल्स लि. 7, न्यू देवास रोड, इन्दौर-45 2003 कोड सं. एम पी/4 (एस) को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 27 (क) के अंतर्गत अधिसूचना सं. पी एफ 1509/एम बी/टैक्ट/27 (2) दिनांक 06-01-1954 जोकि 01-12-1953 से प्रभावी हुई, के अंतर्गत छूट दी गई है।

तथा चूंकि स्थापना ने अधिनियम की धारा 17 (1) के अंतर्गत छूट प्रदान करने की शर्तों का उल्लंघन किया है।

अतः अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 17 की उपधारा 4 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अजय सिंह, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूं तथा एतद्वारा मैसर्स राजकुमार मिल्स लि. को दिनांक 31-03-2004 से दी गई छूट को निरस्त करता हूं।

अजय सिंह

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. : 1-सी.ए.(7)/71/2004--सं. 1-सी.ए.(83)/75 तारीख 16-7-1975 की पूर्वतर अधिसूचना के आंशिक उपान्तरण में तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भी, दि इंडस्ट्रियल ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, विनियम 159 के अधीन यह अधिसूचित करती है कि वर्तमान में केन्द्रीय भारत प्रादेशिक परिषद् की अधिकारिता के अधीन निम्नलिखित नगर, तत्काल प्रभाव से, उसको गाजियाबाद शाखा की अधिकारिता में अन्तर्गत किए जाते हैं :--

1. गिलौठी
2. पिलुखुवा
3. मुरादनगर

डा. अशोक हल्दिया

सचिव

सं. 1-सी.ए.(7)/72/2004--चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में दि ईस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10 मार्च, 2004 से करनाल में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की करनाल शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत, अन्यो के साथ-साथ, करनाल नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आएंगे:--

1. करनाल 2. कुरुक्षेत्र 3. असंध 4. लाडवा 5. पिहोवा

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा, परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों के अधीन रहते हुए उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 1-सी.ए.(7)/73/2004--अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(7)/72/2004 तारीख 29-04-2004 के अनुसार तारीख 10 मार्च, 2004 से करनाल स्थित उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखा के स्थापित हो जाने के परिणामस्वरूप

तथा अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(7)/49/2000 तारीख 7 अप्रैल 2000 के आंशिक उपान्तरण में, दि ईस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159 के अधीन अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित नगर/शहर, जो वर्तमान में उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की अम्बाला शाखा की अधिकारिता/अधिकार क्षेत्र के अधीन आते हैं, करनाल स्थित नवीनतः स्थापित शाखा की अधिकारिता/अधिकार क्षेत्र में अन्तर्गत किए जाते हैं:--

1. कुरुक्षेत्र 2. लाडवा 3. पिहोवा

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

सं. 1-सी.ए.(7)/74/2004--अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(7)/72/2004 तारीख 29-04-2004 के अनुसार तारीख 10 मार्च, 2004 से करनाल स्थित उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखा के स्थापित हो जाने के परिणामस्वरूप तथा अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(7)/41/1999 तारीख 30 मार्च, 1999 के आंशिक उपान्तरण में, दि ईस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि करनाल नगर को, उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की पानीपत शाखा की अधिकारिता/अधिकार क्षेत्र से अलग/अपवर्जित किया जाता है।

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

## भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 28 अप्रैल 2004

फाईल सं. 17-1/2004-पी.सी.आई/549--692

## भारतीय भेषजी परिषद् के

- i) 70 वें केन्द्रीय अधिवेशन दिनांक 21 और 22 अप्रैल, 2003
- ii) 71 वें केन्द्रीय अधिवेशन दिनांक 12 और 13 सितम्बर, 2003
- iii) 72 वें केन्द्रीय अधिवेशन दिनांक 5 और 6 अप्रैल, 2004

में पारित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

**भेषजी डिप्लोमा**

प्रस्ताव संख्या 70/पी.सी.आई./1357

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थान द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मिती पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मिती की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
-----------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

**आन्ध्र प्रदेश**

236/17-461/94-पी.सी.आई.

के.डी.आर. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक

60

2005-2006

सचिव

वानापार्थी - 509 103

डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर

तकनीकी शिक्षा एवं  
प्रशिक्षण राज्य समिति,  
बी.आर.के.आर. भवन,  
7 वां तल, टैक बन्द मार्ग,  
हैदराबाद - 500 063.

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 71/पी.सी.आई./1358

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थान द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

उत्तर प्रदेश

120/17-567/2003-पी.सी.आई.

इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बुंदेलखण्ड यूनिवर्सिटी कानपुर रोड़ झाँसी - 284 128.	60	2005-2006	निबन्धक बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय कानपुर रोड़ झाँसी - 284 128.
---	----	-----------	--

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

**भेषजी डिग्री**

प्रस्ताव संख्या 71/पी.सी.आई./1359

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थान द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

महाराष्ट्र

41/32-225/02-पी.सी.आई.

महाराष्ट्र अकादमी ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्चस महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एस.नम्बर 124, एक्स सर्विसमैन कॉलोनी एम.आई.टी. कैम्पस, पौड़ रोड़ पुणे - 411 038.	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	1998-99 से 2004-2005 तक	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
---	---	----------------------------	--

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

**भेषजी डिप्लोमा**

प्रस्ताव संख्या 72/पी.सी.आई./1360

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मैसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

**दिल्ली**

7/17-28/98-पी.सी.आई.

दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज एण्ड रिसर्च (डी.आई.पी.एस.ए.आर.) गवर्नमेंट ऑफ एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली, पुष्प विहार, सेक्टर III, नई दिल्ली - 110 017.	120	2004-2005	निबन्धक दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली - 110 007.
--	-----	-----------	--

(पहले कॉलेज ऑफ फार्मैसी  
के नाम से जाना जाता था)

**गुजरात**

8/17-323/01-पी.सी.आई.

शांतिलाल शाह फार्मैसी कॉलेज, भावनगर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कैम्पस गौरीशंकर लेक रोड भावनगर - 364 002.	40	2005-2006	निबन्धक भावनगर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, गौरीशंकर लेक रोड, भावनगर-364 002.
---	----	-----------	--

**हरियाणा**

9/17-579/03-पी.सी.आई.

श्री स्नातन धर्म इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी एण्ड मैडिकल टेक्नोलॉजी, नियर गौशाला झज्जर - 124 103.	40	2003-2004 से 2004-2005 तक	निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग एस.सी.ओ. संख्या 38-39, सेक्टर-17-ए, चण्डीगढ़ -160 017.
---	----	------------------------------	---

(पहले एस. डी. इन्स्टीट्यूट ऑफ  
मैडिकल टेक्नोलॉजी के नाम से  
जाना जाता था)

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
<b>कर्नाटक</b>				
10/17-99/03-पी.सी.आई.	फारुकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उमर खय्याम रोड़, तिलक नगर ईदगाह, मैसूर - 570 021.	60	2005-2006	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय संख्या 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलूर - 560 027.
11/17-393/02-पी.सी.आई.	एच.एम.एस. एजुकेशन सोसायटी, एच.एम.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शेट्टीहल्ली रोड़, तुमकूर - 572 102.	60	2002-2003 से 2004-2005 तक	- उपरोक्त -
12/17-456/01-पी.सी.आई.	डी. आर. करी गोडा कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुवम्पू नगर, हसन - 573 201	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	- उपरोक्त -
<b>महाराष्ट्र</b>				
13/17-155/88-पी.सी.आई.	नागरिक शिक्षण संस्थाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 94, टारडिओ रोड़ मुम्बई - 400 034.	60	2005-2006	सचिव तकनीकी परीक्षा समिति महाराष्ट्र राज्य, राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यादव जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
14/17-21/03-पी.सी.आई.	डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी गवर्नमेंट पॉलिटैकनिक, गादगे नगर अमरावती - 444 603.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
<b>उड़ीसा</b>				
15/17-562/2000-पी.सी.आई.	मौ मंगला कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज अंकुरा, करनजिया, पी.ओ. करनजिया डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज - 757 037.	60	2005-2006	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य फार्मेसी समिति, (औषधि नियंत्रक निदेशालय भवन) डाकघर मानचेश्वर, रेलवे कॉलोनी भुवनेश्वर - 751 017

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक बाखिली सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
16/17-557/98-पी.सी.आई.	उड़ीसा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, महिसापैट, धेनकनाल	60	2005-2006	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य फार्मसी समिति, (औषधि नियंत्रक निदेशालय भवन) डाकघर मानचेश्वर, रेलवे कॉलोनी भुवनेश्वर - 751 017

**उत्तर प्रदेश**

17/17-303/98-पी.सी.आई.	जनता पॉलिटैकनिक जहाँगीराबाद, पी.ओ. माईपुर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर - 202 391.	40	2003-2004 से 2005-2006 तक	सचिव तकनीकी शिक्षा समिति 1, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, बास मण्डी चौराहा, चारबाग लखनऊ - 226 001.
------------------------	---	----	------------------------------	---

**पश्चिम बंगाल**

18/17-534/01-पी.सी.आई.	जनान चन्द्र घोष पॉलिटैकनिक, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, 7, मयूरभंज रोड, कोलकाता - 700 023.	20 (बाखिली में वृद्धि 20 से 40 की, सिर्फ 2002-2003 वैधानिक सत्र के लिए)	2004-2005	सचिव तकनीकी शिक्षा परिषद् पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार विकास भवन, 10 बां तल ईस्ट ब्लॉक, साउथ लेक सिटी कोलकाता - 700 091.
------------------------	---	---	-----------	--

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

**भेषजी डिग्री**

प्रस्ताव संख्या 72/पी.सी.आई./1361

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं वैधानिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक बाखिली सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

**आन्ध्र प्रदेश**

19/32-256/03-पी.सी.आई.	भारत इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंगलपल्ली बिलीज, इब्राहिम पट्टनामा (मण्डल) डिस्ट्रिक्ट रंगा रेड्डी - 501 510	60	1999-2000 से 2005-2006 तक	निष्पक्ष जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुमटपल्ली ईबराबाद - 500 072.
------------------------	---	----	------------------------------	---

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
20/32-241/03-पी.सी.आई.	डिक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी जफरगढ़, पी.ओ. कंचनबाग हैदराबाद - 500 058.	40	1997-1998 से 2004-2005 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
<b>गुजरात</b>				
22/32-195/2000-पी.सी.आई.	श्री बी.एम. शाह कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कॉलेज कैम्पस, मोदासा - 383 315.	60	2005-2006	निबन्धक उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पी.ओ. बॉक्स संख्या 21 विश्वविद्यालय मार्ग पाटन - 384 265.
<b>कर्नाटक</b>				
24/32-77/03-पी.सी.आई.	श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसायटी, श्री सिद्धगंगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बी. एच. रोड तुमकूर - 572 102.	60	2005-2006	निबन्धक राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलूर - 560 041.
25/32-121/01-पी.सी.आई.	बी.वी.बी. संघस, हंगल श्री कुमारेस्वरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बागलकोट - 587 101.	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	- उपरोक्त -
26/32-110/96-पी.सी.आई.	फारूकिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उमर खय्याम रोड, तिलक नगर ईदगाह, मैसूर - 570 021	40	2005-2006	- उपरोक्त -
<b>मध्य प्रदेश</b>				
27/32-257/03-पी.सी.आई.	कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आई.पी.एस. अकादमी राजेन्द्र नगर, ए. बी. रोड इन्दौर - 452 012.	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	1998-99 से 2003-2004 तक	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय भवन इन्दौर - 452 001. (2000 से पूर्व)  कुलपति राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036. (2000 से और आगे)



विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
28/32-105/96-पी.सी.आई.	स्कूल ऑफ स्टडीज इन फार्मास्यूटिकल साइंसिज जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर - 474 011.  (पहले इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जीवाजी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था)	60	1997-98 से 2004-2005 तक	निबन्धक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर - 474 011.
<b>महाराष्ट्र</b>				
29/32-148/03-पी.सी.आई.	तापी वैल्ली एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नेहरू विद्यानगर, फेजपुर - 425 503 डिस्ट्रिक्ट जलगाँव	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	निबन्धक उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स संख्या 80, उमावी नगर जलगाँव - 425 001.
30/32-39/03-पी.सी.आई.	सी.यू. शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एस.एन.डी.टी. वीमन्स यूनिवर्सिटी सर विठ्ठलदास विद्या विहार, जूहू, सांताक्रूज (वेस्ट), मुम्बई - 400 049.	40	2005-2006	निबन्धक एस.एन.डी.टी. वीमन्स यूनिवर्सिटी 1, नाथीबाई ठाकरेसी मार्ग, मुम्बई - 400 020.
31/32-226/02-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कैम्पस शिवाजी नगर, अमरावती - 444 603.	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	1996-97 से 2003-2004 तक	निबन्धक अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती - 444 602.
32/32-18/95-पी.सी.आई.	डिपार्टमेंट ऑफ फार्म. साइंसिज महात्मा ज्योतिबा फूले शैक्षणिक परिसर अमरावती रोड, नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर - 440 010.	60	2005-2006	निबन्धक नागपुर विश्वविद्यालय छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक परिसर रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग नागपुर - 440 001.
33/32-135/97-पी.सी.आई.	डी.एस.टी.एस. मण्डलस कॉलेज ऑफ फार्मेसी 1, जूले सोलापुर, वीजापुर रोड सोलापुर - 413 004.	40 (दाखिलों में वृद्धि 30 से 40 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	निबन्धक शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर - 416 001.

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
34/32-100/03-पी.सी.आई.	श्रीमती शरदचन्द्रिका सुरेश पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मसी चोपदा - 425 107 डिस्ट्रिक्ट जलगाँव	60 (दाखिलों में वृद्ध 40 से 60 की, 2001-2002 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	निबन्धक उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स संख्या 80, उमावी नगर जलगाँव - 425 001.
35/32-134/00-पी.सी.आई.	भारती विद्यापीठस कॉलेज ऑफ फार्मसी सेक्टर 8, सी.बी.डी., नवी मुम्बई - 400 614.	60	2005-2006	निबन्धक बॉम्बे विश्वविद्यालय, फोर्ट, मुम्बई - 400 032.
36/32-93/02-पी.सी.आई.	एम.जी.वीस फार्मसी कॉलेज मुम्बई आगरा रोड, पंचवटी, नाशिक - 422 003.	60	2005-2006	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड, पुणे - 411 007.
38/32-189/99-पी.सी.आई.	श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसायटीज नानडेड फार्मसी कॉलेज, श्याम नगर, नानडेड - 431 605.	40	1996-1997 से 2004-2005 तक	निबन्धक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, “ज्ञानतीर्थ” विष्णुपुरी नानडेड - 431 606.
39/32-211/01-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मसी गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कॉलेज कैम्पस, स्टेशन रोड, ओसमानपुरा, औरंगाबाद - 431 005.	40	1996-1997 से 2004-2005 तक	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, आनन्द विहार कॉलोनी, आनन्दवल्ली, गंगापुर रोड नासिक - 422 005. (2000 तक)  परीक्षा नियंत्रक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, औरंगाबाद - 431 004. (2001 से और आगे)
उत्तीसा				
40/32-70/02-पी.सी.आई.	कमल मंजरी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एट/पी.ओ. छिण्ड, राउरकेला - 769 015. डिस्ट्रिक्ट सुन्दरगढ़	60	2005-2006	निबन्धक सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार, बर्ला जिला सम्बलपुर - 768 019.

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
72/32-188/99-पी.सी.आई.				
	इन्दिरा गाँधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज आई.आर.सी. विलेज, भुवनेश्वर - 751 015.	60	1999-2000 से 2004-2005 तक	निबन्धक उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार भुवनेश्वर - 751 004.
73/32-255/03-पी.सी.आई.				
	गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गायत्री विहार, जामादरपाली सम्बलपुर - 768 101.	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	1999-2000 से 2004-2005 तक	निबन्धक, सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार, बर्ला डिस्ट्रिक्ट सम्बलपुर - 768 019. (2002-2003 तक)
<u>राजस्थान</u>				
45/32-41/89-पी.सी.आई.				
	लाछू मैमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (फार्मेसी), सैक्टर-ए, शास्त्री नगर, जोधपुर - 342 003.	60	2005-2006	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001 (2002-2003 तक)
<u>तमिलनाडु</u>				
46/32-216/01-पी.सी.आई.				
	ए.जे. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मेडावक्कम हाई रोड, शोलिंगनलूर चेन्नई - 600 119.	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2002-2003 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	निबन्धक, दी तमिल नाडू डॉ. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, पी.बी.नं० 1200, नं० 69 (पुराना नं० 40), अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
47/32-99/95-पी.सी.आई.	पल्लावन फार्मसी कॉलेज, इयेनगारकुलम, कांचीपुरम, डिस्ट्रिक्ट कांचीपुरम - 631 502.	60	2005-2006	निबंधक, दी तमिल नाडू डॉ. एम.जी. आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, पी.बी.नं० 1200, नं० 69 (पुराना नं० 40), अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
48/32-183/03-पी.सी.आई.	अन्नाई वैलनकन्नीज फार्मसी कॉलेज, 83/33, वी.जी. पन्नीरघोस सलाई, चेन्नई - 600 015.	40	2005-2006	- उपरोक्त -
49/32-234/02-पी.सी.आई.	जे. के. के. मुनिराजा मैडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, अन्नाई जे. के. के. सम्पूर्ण अम्माल कॉलेज ऑफ फार्मसी, इथिरमेडू बी. कोमारापाल्याम-638 183 पी. बी. नं० 70, डिस्ट्रिक्ट नामाक्कल	60 60	2005-2006 1992-93 से 2000-2001 तक	- उपरोक्त -
<b>उत्तर प्रदेश</b>				
50/32-212/01-पी.सी.आई.	इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी बुंदेलखण्ड यूनिवर्सिटी, कानपुर रोड़ झांसी - 284 128.	60	1999-2000 से 2005-2006 तक	कुलपति बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय कानपुर रोड़, झांसी - 284 128.
51/32-217/01-पी.सी.आई.	श्री गोपीचन्द कॉलेज ऑफ फार्मसी, अहेरा, बागपत - 250 609.	45	2005-2006	निबन्धक चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ-250 001 (2000-2001 से पूर्व)  निबन्धक उत्तर प्रदेश टैकनिकल यूनिवर्सिटी, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टैकलोनॉजी कैम्पस, सीतापुर मार्ग लखनऊ - 226 021. (2000-2001 से और आगे)

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

अर्चना मुद्गल  
निबंधक-एवं-सचिव

**भारतीय भेषजी परिषद्**  
(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 28 अप्रैल 2004

मांसल स. 17-1/2002-पी.सी.आई./695--736

**शुद्धिपत्र**

- i) भारत के राजपत्र संख्या 16, भाग - III, खण्ड 4 दिनांक 15.4.2000 में पृष्ठ संख्या 938 (डिप्लोमा के लिए) और पृष्ठ संख्या 952 (डिग्री के लिए) पर प्रकाशित भारतीय भेषजी परिषद् के 66 वें अधिवेशन फरवरी 2000 में पारित संकल्पों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है -

पृष्ठ संख्या 938 (डिप्लोमा के लिए), प्रस्ताव संख्या 66/पी.सी.आई./1145 में भूपाल नोबलस कालेज आफ फार्मेसी, उदयपुर -313 001, राजस्थान के द्वितीय पैरा (2) में

के स्थान पर	पढ़ें
(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर - 302 001, राजस्थान द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।	(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर - 302 001, राजस्थान (1999-2000 तक) और रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान (2000-2001 से और आगे) द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

पृष्ठ संख्या 952 (डिग्री के लिए), प्रस्ताव संख्या 66/पी.सी.आई./1176 में भूपाल नोबलस कालेज ऑफ फार्मेसी, उदयपुर - 313 001, राजस्थान, के द्वितीय पैरा (2) में

के स्थान पर	पढ़ें
(2) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 48) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर - 362001, द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।	(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001, राजस्थान (1999-2000 तक) और रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान (2000-2001 से और आगे) द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

- ii) भारत के राजपत्र संख्या 23, भाग - III, खण्ड 4 दिनांक 8.6.2002 में पृष्ठ संख्या 2382 (डिप्लोमा के लिए) और पृष्ठ संख्या 2403 (डिग्री के लिए) पर प्रकाशित भारतीय भेषजी परिषद् के 69 वें अधिवेशन मई 2002 में पारित संकल्पों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है -

पृष्ठ संख्या 2382 (डिप्लोमा के लिए), प्रस्ताव संख्या 69/पी.सी.आई./1308 में भूपाल नोबलस कालेज ऑफ फार्मेसी, उदयपुर - 313 001 के द्वितीय पैरा [2] में

के स्थान पर	पढ़ें
[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा (12 की उपधारा 2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001, राजस्थान, द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।	[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान (2000-2001 से और आगे) द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

पृष्ठ संख्या 2403 (डिग्री के लिए), प्रस्ताव संख्या 69/पी.सी.आई./1343 में भूपाल नोबल्ल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उदयपुर - 313 001 के द्वितीय पैरा [2] में

के स्थान पर	पढ़ें
<p>[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा (12 की उपधारा 2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001, राजस्थान, द्वारा उपरोक्त सूत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।</p>	<p>[2] भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद्, रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान (2000-2001 से और आगे) द्वारा उपरोक्त सूत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।</p>

अर्चना मुद्गल  
निबंधक-एवं-सचिव

MINISTRY OF LABOUR  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110066

E-III/9(1)94/MP/Vol. II—Whereas M/s. Rajkumar Mills, Ltd., 7, New Dewas Road, Indore-452003, Code No. MP/4(S) had been granted exemption under Para 27A of the EPF Scheme, 1952 Vide Notification No. PF/509/MB/TXT/27(2) dated 06.01.1954 w.e.f. 01.12.1953.

And whereas, the establishment has violated the conditions for the grant of exemption mentioned under section 17(1A) of the Act.

Now, therefore in exercise of powers conferred by clause (a) of sub section (4) of section 17 of the EPF & MP Act, 1952, I, Ajai Singh, Central Provident Fund Commissioner accord my approval and hereby cancel the exemption to M/s. Rajkumar Mills w.e.f. 31.03.2004.

AJAI SINGH  
Central Provident Fund Commissioner

The Institute of Chartered Accountants of India  
New Delhi-110002, the 29th April 2004  
(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/71/2004—In partial modification of earlier Notification bearing No. 1-CA(83)/75 dated 16-7-1975 and also in pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify under Regulation 159 that the following towns presently under the jurisdiction of Central India Regional Council stand transferred to the jurisdiction of its Ghaziabad Branch, with immediate effect :—

1. Gulaothi 2. Pilukhwa 3. Muradnagar

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.

No. 1-CA(7)/72/2004—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Northern India Regional Council at Karnal with effect from 10th March, 2004.

The Branch shall be known as Karnal Branch of the Northern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, inter-alia, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Karnal City :

1. Karnal 2. Kurukshetra 3. Assandh 4. Ladwa 5. Pehowa

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Northern India Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.

The 30th April, 2004

No. 1-CA(7)/73/2004—Consequent upon the setting up of a branch of Northern India Regional Council at Karnal w.e.f. 10th March, 2004 vide Notification No. 1-CA(7)/72/2004 dated 29.04.2004, and in partial modification of Notification No. 1-CA(7)/49/2000 dated 7.4.2000, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, in exercise of its powers under Regulation 159 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 is pleased to notify that the following towns/cities which are presently covered under the jurisdiction of Ambala Branch of Northern India Regional Council stand transferred to the jurisdiction of the newly set up Branch at Karnal :—

1. Kurukshetra 2. Ladwa 3. Pehowa

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.

No. 1-CA(7)/74/2004—Consequent upon the setting up of a branch of Northern India Regional Council at Karnal w.e.f. 10th March, 2004 vide Notification No. 1-CA(7)/72/2004 dated 29.4.2004, and in partial modification of Notification No. 1-CA(7)/41/1999 dated 30.3.99, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, in exercise of its powers under Regulation 159 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 is pleased to notify that the city of Karnal stands excluded from the jurisdiction of Panipat Branch of Northern India Regional Council.

DR. ASHOK HALDIA  
Secy.



## PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Constituted under the Pharmacy Act, 1948)

New Delhi-110002, the 28th April 2004

Ref. No. 17-1/2004-PCI/549—692

The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India in its –

- i) 70<sup>th</sup> meeting of the Central Council held on 21<sup>st</sup> & 22<sup>nd</sup> April, 2003
- ii) 71<sup>st</sup> meeting of the Central Council held on 12<sup>th</sup> & 13<sup>th</sup> September, 2003
- iii) 72<sup>nd</sup> meeting of the Central Council held on 5<sup>th</sup> & 6<sup>th</sup> April, 2004

are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

**DIPLOMA IN PHARMACY****Resolution No.70/PCI/1357**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Item No./ File No.	Name of institution	For adms. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**ANDHRA PRADESH**

236/17-461/94-PCI

K.D.R. Govt. Polytechnic,  
Wanaparthy – 509 103  
Distt. Mahabubnagar.

60

2005-2006

The Secretary  
State Board of Technical  
Education & Training  
B.R.K.R. Building  
7<sup>th</sup> Floor, Tank Bund Road  
Hyderabad – 500 063.

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authority, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

**Resolution No.71/PCI/1358**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Item No./ File No.	Name of institution	For admns. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**UTTAR PRADESH**

120/17-567/2003-PCI

Institute of Pharmacy, Bundelkhand University, Kanpur Road, Jhansi – 284 128.	60	2005-2006	The Registrar Bundelkhand University Kanpur Road Jhansi – 284 128.
---	----	-----------	---

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authority, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

**DEGREE IN PHARMACY****Resolution No.71/PCI/1359**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Item No./ File No.	Name of institution	For admns. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**MAHARASHTRA**

41/32-225/02-PCI

Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research's Maharashtra Institute of Pharmacy S.No.124, Ex-Serviceman Colony MIT Campus, Paud Road, Pune – 411 038.	60 (Raise in admns. from 40 to 60 from 2002-2003 academic session)	From 1998-1999 to 2004-2005	The Registrar University of Pune Ganeshkhind Pune 411 007.
---	--	--------------------------------	---

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authority, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

**DIPLOMA IN PHARMACY****Resolution No.72/PCI/1360**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Item No./ File No.	Name of institutions	For admsns. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
-----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**DELHI**

7/17-28/98-PCI

Delhi Institute of Pharmaceutical  
Sciences & Research, (DIPSAR)  
Govt. of N.C.T. of Delhi,  
Pushp Vihar, Sector III,  
New Delhi 110 017.

120

2004-2005

The Registrar  
University of Delhi  
Delhi – 110 007.

(formerly known as College  
of Pharmacy)

**GUJARAT**

8/17-323/01-PCI

Shantilal Shah Pharmacy College,  
Bhavnagar University  
University Campus  
Gaurishankar Lake Road  
Bhavnagar – 364 002.

40

2005-2006

The Registrar,  
Bhavnagar University,  
University Campus,  
Gaurishankar Lake Road,  
Bhavnagar-364 002.

**HARYANA**

9/17-579/03-PCI

Shri Sanatan Dharam Institute  
of Pharmacy & Medical  
Technology, Near Gaushala,  
Jhajjar-124 103.

40

From 2003-2004  
to 2004-2005

The Director  
Technical Education Department  
S.C.O.No.38-39  
Sector-17-A, Haryana  
Chandigarh-160 017.

(formerly known as S.D. Institute  
of Medical Technology)

Item No./ File No.	Name of institutions	For admsns. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
-----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**KARNATAKA**

10/17-99/03-PCI

Fardooqia College of Pharmacy,  
Umar Khayam Road, Tilak Nagar  
Eidgah, Mysore - 570 021.

60

2005-2006

The Member Secretary  
O/o the Board of Examining  
Authority, III Floor  
Govt. College of Pharmacy  
No.2, Subbaiah Circle  
Dr. P. Kalinga Rao Road  
Bangalore - 560 027.

11/17-393/02-PCI

H.M.S. Education Society,  
H.M.S. College of Pharmacy,  
Shettihalli Road,  
Tumkur - 572 102.

60

From 2002-2003  
to 2004-2005

-do-

12/17-456/01-PCI

D.R. Kari Gowda  
College of Pharmacy  
Kuvempu Nagar,  
Hassan - 573 201.

60

2005-2006

(Raise in admsns.  
from 40 to 60  
from 2002-2003  
academic session)

-do-

**MAHARASHTRA**

13/17-155/88-PCI

Nagrik Shikshan Sanstha's  
College of Pharmacy,  
94, Tardeo Road  
Mumbai - 400 034.

60

2005-2006

The Secretary,  
Board of Technical Examinations  
Maharashtra State,  
Govt. Polytechnic Building,  
III Floor, 49, Kherwadi,  
Ali Yawar Jung Marg,  
Bandra (E), Mumbai - 400 051.

14/17-21/03-PCI

Deptt. of Pharmacy  
Govt. Polytechnic, Gadge Nagar  
Amravati - 444 603.

60

2005-2006

-do-

**ORISSA**

15/17-562/2000-PCI

Maa Mangla College of  
Pharmaceutical Sciences  
Ankura, Karanjia, P.O. Karanjia  
Distt. Mayurbhanj - 757 037.

60

2005-2006

The Member-Secretary  
Orissa State Board of  
Pharmacy (Directorate of  
Drugs Control Building)  
P.O. Mancheswar,  
Railway Colony  
Bhubaneswar - 751 017.

Item No./ File No.	Name of institutions	For adms. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
-----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

16/17-557/98-PCI	Orissa College of Pharmaceutical Sciences, Mahisapat, Dhenkanal.	60	2005-2006	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy (Directorate of Drugs Control Building) P.O. Mancheswar, Railway Colony Bhubaneswar - 751 017.
------------------	--	----	-----------	--

**UTTAR PRADESH**

17/17-303/98-PCI	Janta Polytechnic Jahangirabad, P.O. Bhaipur Distt. Bulandshahar - 202 391.	40	From 2003-2004 to 2005-2006	The Secretary Board of Technical Education 1-Guru Gobind Singh Marg, Bas Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
------------------	---	----	--------------------------------	--

**WEST BENGAL**

18/17-534/01-PCI	Jnan Chandra Ghosh- Polytechnic, Govt. of West Bengal, 7, Mayurbhanj Road, Kolkata - 700 023.	20 (Raise in adms. from 20 to 40 for 2002-2003 academic session only as a one time arrangement)	2004-2005	The Secretary West Bengal State Council of Technical Education Govt. of West Bengal Bikash Bhawan, 10th Floor East Block, Salt Lake City Kolkata - 700 091.
------------------	---	---	-----------	---

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

**DEGREE IN PHARMACY****Resolution No.72/PCI/1361**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Item No./ File No.	Name of institutions	For adms. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
-----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**ANDHRA PRADESH**

19/32-256/03-PCI	Bharat Institute of Technology Mangalpalli Village, Ibrahim Patnana (Mandal) Distt. Ranga Reddy - 501 510.	60	From 1999-2000 to 2005-2006	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally Hyderabad- 500 072.
------------------	---	----	--------------------------------	--

Item No./ File No.	Name of institutions	For adms. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
20/32-241/03-PCI	Deccan School of Pharmacy Zafargarh, P.O. <del>Kanchan</del> bagh Hyderabad – 500 058.	40	From 1997-1998 to 2004-2005	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally Hyderabad- 500 072.

**GUJARAT**

22/32-195/2000-PCI	Shri B.M. Shah College of Pharmaceutical Education & Research, College Campus, Modasa - 383 315.	60	2005-2006	The Registrar, North Gujarat University P.O, Box No.21 University Road Patan – 384 265.
--------------------	---	----	-----------	---

**KARNATAKA**

24/32-77/03-PCI	Sree Siddaganga Education Society, Sree Siddaganga College of Pharmacy, B.H.Road Tumkur - 572 102.	60	2005-2006	The Registrar Rajiv Gandhi Univ. of Health Scs., Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore-560 041.
-----------------	---	----	-----------	---

25/32-121/01-PCI	B.V.V. Sangha's, Hanagal Shri Kumareshwara College of Pharmacy, Bagalkot - 587 101.	60 (Raise in adms. from 40 to 60 from 2002-2003 academic session)	2005-2006	-do-
------------------	--	---	-----------	------

26/32-110/96-PCI	Farooqia College of Pharmacy Umar Khayam Road, Tilak Nagar, Eidgah, Mysore - 570 021.	40	2005-2006	-do-
------------------	---	----	-----------	------

**MADHYA PRADESH**

27/32-257/03-PCI	College of Pharmacy, I.P.S. Academy Rajendra Nagar, A.B. Road Indore – 452 012.	60 (Raise in adms. from 40 to 60 from 2002-2003 academic session)	From 1998-99 to 2003-2004	Devi Ahilya Viswavidyalaya Vishwavidyalay Bhawan Indore 452 001. (prior to 2000)  The Vice Chancellor Rajiv Gandhi Prodhogiki Vishwavidyalaya Air Port By Pass Road Gandhi Nagar Bhopal 462 036. (From 2000 and onwards)
------------------	---	---	------------------------------	--

Item No./ Name of Institutions File No.	For adms. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
28/32-105/96-PCI School of Studies in Pharmaceutical Sciences Jiwaji University Gwalior - 474 011.  (Formerly known as Institute of Pharmacy, Jiwaji University)	60	From 1997-98 to 2004-2005	The Registrar Jiwaji University Gwalior - 474 011.
<b>MAHARASHTRA</b>			
29/32-148/03-PCI Tapi Valley Education Society's College of Pharmacy, Nehru Vidyanagar, Faizpur-425 503 Distt. Jalgaon.	60 (Raise in adms. from 40 to 60 from 2002-2003 academic session)	2005-2006	The Registrar North Maharashtra University P.B.No.80, Umavi Nagar Jalgaon - 425 001.
30/32-39/03-PCI C.U. Shah College of Pharmacy S.N.D.T. Women's University, Sir Vithaldas Vidya Vihar, Juhu, Santacruz (West), Mumbai - 400 049.	40	2005-2006	The Registrar SNDT Women's University 1, Nathibai Thackersey Road Mumbai-400 020.
31/32-226/02-PCI Govt. College of Pharmacy Govt. Polytechnic Campus Shivaji Nagar, Amravati - 444 603.	60 (Raise in adms. from 40 to 60 from 2002-2003 academic session)	From 1996-97 to 2003-2004	The Registrar Amravati University Amravati - 444 602.
32/32-18/95-PCI Deptt. of Pharmaceutical Sciences, Mahatma Jyotiba Fuley Shaikshanik Parisar Amravati Road Nagpur University Nagpur - 440 010.	60	2005-2006	The Registrar Nagpur University Chhatrapati Shivaji Maharaj Administrative Premises, Ravindranath Tagore Marg Nagpur-440 001.
33/32-135/97-PCI D.S.T.S. Mandal's College of Pharmacy 1, Jule Solapur, Vijapur Road Solapur - 413 004.	40 (Raise in adms. from 30 to 40 from 2002-2003 academic session)	2005-2006	The Registrar, Shivaji University, Kolhapur-416 001.

Item No./ File No.	Name of institutions	For adms. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
34/32-100/03-PCI	Smt. Sharadchandrika Suresh Patil College of Pharmacy Chopda - 425 107 Distt. Jalgaon.	60 (Raise in adms. from 40 to 60 from 2001-2002 academic session)	2005-2006	The Registrar North Maharashtra University, P.B.No. 80, Umavi Nagar, Jalgaon-425 001.
35/32-134/00-PCI	Bharati Vidyapeeth's College of Pharmacy Sector 8, C.B.D., Navi Mumbai - 400 614.	60	2005-2006	The Registrar Bombay University, Fort, Mumbai-400 032.
36/32-93/02-PCI	M.G.V.'s Pharmacy College Mumbai Agra Road, Panchavati, Nashik - 422 003.	60	2005-2006	The Registrar, University of Poona, Ganeshkind, Pune - 411 007.
38/32-189/99-PCI	Shri Sharda Bhavan Education Society's Nanded Pharmacy College, Shyam Nagar, Nanded-431 605.	40	From 1996-1997 to 2004-2005	The Registrar Swami Ramanand Teerth Marathwada University "Dnyanteerth", Vishnupuri Nanded - 431 606.
39/32-211/01-PCI	Govt. College of Pharmacy Govt. Engg. College Campus, Station Road, Osmanpura, Aurangabad - 431 005.	40	From 1996-1997 to 2004-2005	The Registrar Maharashtra University of Health Sciences Anand Vihar Colony Anandvalli, Gangapur Road Nashik - 422 005. (Upto 2000)  The Controller of Exam., Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University University Campus Aurangabad - 431 004. (From 2001 and onwards)
<b>ORISSA</b>				
40/32-70/02-PCI	Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, At/PO Chhend, Rourkela - 769 015 Distt. Sundergarh	60	2005-2006	The Registrar Sambalpur University, Jyoti Vihar, Burla Dist. Sambalpur - 768 019.



Item No./ File No.	Name of institutions	For admns. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
72/32-188/99-PCI	Indira Gandhi Institute of Pharmaceutical Sciences, I.R.C. Village, Bhubaneswar – 751 015.	60	From 1999-2000 to 2004-2005	The Registrar Utkal University, Vani Vihar Bhubaneswar – 751 004.

73/32-255/03-PCI	Gayatri College of Pharmacy, Gayatri Vihar, Jamadaripali Sambalpur – 768 101.	60 (Raise in admns. from 40 to 60 from 2002-2003 academic session)	From 1999-2000 to 2004-2005	The Registrar Sambalpur University Jyoti Vihar, Burla Distt. Sambalpur – 768 019 (Upto 2002-2003)  The Registrar Biju Patnaik University of Technology, Rourkela. (from 2003-04 and onwards)
------------------	--	--	--------------------------------	---

**RAJASTHAN**

45/32-41/89-PCI	Lachoo Memorial College of Science & Technology (Pharmacy), Sector – A, Shastri Nagar, Jodhpur – 342 003.	60	2005-2006	The Registrar University of Rajasthan Jaipur – 302 001. (upto 2002-2003)  The Registrar Jai Narain Vyas University Jodhpur. (from 2003-2004 and onwards)
-----------------	---	----	-----------	--

**TAMIL NADU**

46/32-216/01-PCI	A.J. College of Pharmacy Medavakkam High Road, Sholinganallur Chennai – 600 119.	60 (Raise in admns. from 40 to 60 from 2002-2003 academic session)	2005-2006	The Registrar, The Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University, P.B.No.1200, No.69 (Old No.40) Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
47/32-99/95-PCI	Pallavan Pharmacy College, Iyyengarkulam, Kanchipuram, Distt. Kanchipuram - 631 502.	60	2005-2006	-do-

Item No./ File No.	Name of institutions	For adms. Limited to	Approved upto academic session	Name of the Examining Authority
48/32-183/03-PCI	Annai Vellankanni's Pharmacy College, 83/33, V.G. Panneerdhos Salai, Chennai-600 015.	40	2005-2006	The Registrar, The Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University, P.B.No.1200, No.69 (Old No.40) Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
49/32-234/02-PCI	J.K.K. Munirajahh Medical Research Foundation, Annai J.K.K. Sampoorani Ammal College of Pharmacy, Ethirnedu, B. Komarapalayam - 638 183, P.B.No.70, Namakkal, District.	60  60	2005-2006  From 1992-93 to 2000-2001	-do-

**UTTAR PRADESH**

50/32-212/01-PCI	Institute of Pharmacy, Bundelkhand University, Kanpur Road, Jhansi - 284 128.	60	From 1999-2000 to 2005-2006	The Vice-Chancellor Bundelkhand University Kanpur Road, Jhansi - 284 128.
51/32-217/01-PCI	Shri Gopichand College of Pharmacy Ahera, Baghpat - 250 609.	45	2005-2006	The Registrar Ch. Charan Singh University Meerut - 250 001. (Prior to 2000-2001)  The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Instt. of Engineering & Technology Campus, Sitapur Road Lucknow - 226 021. (from 2000-2001 and onwards)

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

**ARCHNA MUDGAL**  
Registrar-cum-Secretary

## PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Constituted under the Pharmacy Act, 1948)

## CORRIGENDUM

New Delhi-110002, the 28th April 2004

Ref. No. 17-1/2002-PCI/693—736

- i) In the notification of resolution passed in the 66<sup>th</sup> meeting held in Feb., 2000 of the Pharmacy Council of India and published in the Gazette of India, No.16, Part-III, Section 4, dt.15.4.2000, Page No.1043 (for Diploma) and Page No.1054 (for Degree) the following corrigendum is issued:-

On Page No.1043 (for Diploma), Resolution No.66/PCI/1145 in respect of Bhupal Nobles College of Pharmacy, Udaipur – 313 001 Rajasthan, in the second para (2).

For	Read
(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Rajasthan, Jaipur – 302001, Rajasthan, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."	(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Rajasthan, Jaipur-302001, Rajasthan (upto 1999-2000) and Registrar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan, (from 2000-2001 and onwards) during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

On Page No.1054 (for Degree), Resolution No.66/PCI/1176 in respect of Bhupal Nobles' College of Pharmacy, Udaipur – 313001, Rajasthan, in the second para (2).

For	Read
(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Rajasthan, Jaipur – 302 001, Rajasthan, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."	(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Rajasthan, Jaipur-302001, Rajasthan (upto 1999-2000) and Registrar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan, (from 2000-2001 and onwards), during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

- ii) In the notification of resolution, passed by 69<sup>th</sup> meeting held in May, 2002 of the Pharmacy Council of India and published in the Gazette of India, No.23, Part-III, Section 4, dt.8.6.2002, Page No.2519 (for Diploma) and Page No.2544 (for Degree) the following corrigendum is issued:-

On Page No.2519 (for Diploma), Resolution No.69/PCI/1308 in respect of Bhupal Nobles' College of Pharmacy, Udaipur – 313 001, in the second para (2).

For	Read
(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Rajasthan, Jaipur – 302 001, Rajasthan, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."	(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan, (from 2000-2001 and onwards) during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

On Page No.2544 (for Degree), Resolution No.69/PCI/1343 in respect of Bhupal Nobles' College of Pharmacy, Udaipur – 313 001, in the second para (2).

For	Read
(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Rajasthan, Jaipur – 302 001, Rajasthan, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."	(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan, (from 2000-2001 and onwards) during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

**ARCHNA MUDGAL**  
Registrar-cum-Secretary